



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021

श्रावण 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1528/9-1-2021-19 सा-13

लखनऊ, 6 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-281

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करती हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्याग-पत्र का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	बिजनौर	न० पं० मण्डावर	—	श्रीमती अफशा निगार (अध्यक्ष)	05-05-2021 (मृत्यु)
2	आगरा	न० पं० स्वामीबाग	—	श्री संजय कपूर (अध्यक्ष)	26-05-2021 (मृत्यु)
3	झाँसी	न० पा० प० समथर	07	श्री अजयपाल सिंह (सदस्य)	15-02-2021 (मृत्यु)
4	रायबरेली	न० प० नसीराबाद	07	श्रीमती इरसाना बानो (सदस्य)	20-04-2021 (मृत्यु)
5	बागपत	न० पा० प० बडौत	20	श्री ललित कुमार जैन (सदस्य)	16-12-2020 (त्याग-पत्र)

1	2	3	4	5	6
6	सहारनपुर	न० पा० प० देवबन्द	06	श्री धारा सिंह (सदस्य)	12-10-2019 (मृत्यु)
7	सहारनपुर	न० पा० प० नकुड़	13	श्री प्रदीप कुमार (सदस्य)	21-03-2020 (मृत्यु)
8	सहारनपुर	न० पा० प० गंगोह	17	मौ० राशिद (सदस्य)	26-01-2020 (मृत्यु)
9	सहारनपुर	न० पा० प० सरसावाँ	25	श्री अनिल कुमार (सदस्य)	07-10-2020 (मृत्यु)
10	अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	39	श्री रिजवान हुसैन (पार्षद)	24-04-2021 (मृत्यु)
11	अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	65	श्री अमीरुद्दीन (पार्षद)	24-04-2021 (मृत्यु)
12	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	39	श्री राजेन्द्र सिंह (पार्षद)	15-04-2021 (मृत्यु)
13	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	105	श्री शहनाज अबरार (पार्षद)	17-04-2021 (मृत्यु)
14	कानपुर नगर	नगर निगम, कानपुर नगर	32	श्री रमेश बाजपेई (पार्षद)	16-04-2021 (मृत्यु)
15	जौनपुर	न० प०, बदलापुर	08	श्री हरिश्चन्द्र चौरसिया (सदस्य)	28-04-2021 (मृत्यु)
16	कानपुर नगर	न० प०, शिवराजपुर	08	श्रीमती राम मोहिनी (सदस्य)	25-04-2021 (मृत्यु)
17	मुरादाबाद	न० पा० प०, बिलारी	01	श्री महेश (सदस्य)	06-05-2021 (मृत्यु)
18	गाजियाबाद	न० पा० प०, खोड़-मकनपुर	21	श्री शशि भूषण (सदस्य)	22-04-2021 (मृत्यु)
19	बलिया	न० प०, बॉसडीह	01	श्री परमेश्वर सिंह (सदस्य)	29-04-2021 (मृत्यु)
20	बहराइच	न० पा० प०, बहराइच	10	श्रीमती अफसाना (सदस्य)	27-04-2021 (मृत्यु)
21	गोण्डा	न० पा० प०, कर्नलगंज	10	श्रीमती प्रेमावती (सदस्य)	02-06-2021 (मृत्यु)
22	मेरठ	न० पा० प०, मवाना	21	मौ० फारुख (सदस्य)	03-05-2021 (मृत्यु)

आज्ञा से,
डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 251 राजपत्र-2021-(569)-599+20=619 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।